

English	Hindi
<b>Travelling out of the ACT</b>	<b>ACT से बाहर यात्रा करना</b>
<u>Travelling interstate</u>	दूसरे राज्यों में यात्रा करना
You should not travel if you are unwell.	यदि आप अस्वस्थ हैं, तो आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए।
Please carefully consider the need to travel outside of the Canberra region, and look up the travel restrictions for the state or territory you are planning to visit.	कृपया कैनबरा क्षेत्र से बाहर यात्रा करने की आवश्यकता के बारे में ध्यान से सोचें, और आप जिस राज्य या राज्य-क्षेत्र में जाने की योजना बना रहे/रही हैं, वहाँ के लिए लागू यात्रा प्रतिबंध देखें।
If you choose to travel, it is your responsibility to maintain physical distancing and practise good hygiene.	यदि आप यात्रा करने का चयन करते/करती हैं, तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप शारीरिक दूरी बनाए रखें और अच्छी स्वच्छता-प्रथाओं का पालन करें।
Adhere to the rules of the state you are travelling to. Check the rules for each state or territory.	आप जिस राज्य की यात्रा कर रहे/रही हैं, वहाँ के नियमों का पालन करें। प्रत्येक राज्य या राज्य-क्षेत्र के नियमों की जाँच करें।
More travel advice is available on the Department of Health website.	और अधिक यात्रा सलाह Department of Health की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
<u>Travelling to NSW</u>	एनएसडब्ल्यू में यात्रा करना
Be aware of areas in New South Wales (NSW) where there are clusters of COVID-19 cases and reconsider your need to travel to these areas. Only travel to these areas for essential reasons.  Travellers returning to the ACT from NSW hotspots will be required to quarantine for 14 days. <a href="https://www.covid19.act.gov.au/community/travelling-and-transport">https://www.covid19.act.gov.au/community/travelling-and-transport</a>	न्यू साउथ वेल्स (NSW) के ऐसे क्षेत्रों के बारे में अवगत रहें जहाँ COVID-19 मामलों के क्लस्टर मौजूद हैं और इन क्षेत्रों की यात्रा करने की अपनी आवश्यकता के बारे में फिर से विचार करें। केवल अनिवार्य कारणों के लिए ही इन क्षेत्रों की यात्रा करें।  NSW के हॉटस्पॉट क्षेत्रों से ACT में वापिस आने वाले यात्रियों को 14 दिनों के लिए संगरोध करने की आवश्यकता होगी। <a href="https://www.covid19.act.gov.au/community/travelling-and-transport">https://www.covid19.act.gov.au/community/travelling-and-transport</a>

<p>To find out more about NSW hotspots, visit the New South Wales website for latest information on cases.  <a href="https://www.nsw.gov.au/covid-19/latest-news-and-updates">https://www.nsw.gov.au/covid-19/latest-news-and-updates</a></p>	<p>NSW के हॉटस्पॉट क्षेत्रों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए न्यू साउथ वेल्स की वेबसाइट <a href="https://www.nsw.gov.au/covid-19/latest-news-and-updates">https://www.nsw.gov.au/covid-19/latest-news-and-updates</a> पर जाएँ, जिसका उद्देश्य मामलों की अद्यतन जानकारी प्रदान करना है।</p>
<p>Canberrans can visit NSW for a holiday.</p>	<p>Canberrans अवकाश के लिए NSW में यात्रा कर सकते हैं।</p>
<p><u>Important information about travelling to Victoria.</u></p>	<p>विक्टोरिया की यात्रा करने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी</p>
<p>Canberrans are being strongly advised not to travel to Victoria at this time except for essential reasons. Canberrans that choose to travel to Victoria will be required to undertake quarantine for a period of 14 days on their return.</p> <p>More information on returning from Victoria is available  <a href="https://www.covid19.act.gov.au/community/translated-resources">https://www.covid19.act.gov.au/community/translated-resources</a></p>	<p>यदि कोई अनिवार्य कारण न हो, तो Canberrans को इस समय विक्टोरिया की यात्रा न करने की पुरजोर सलाह दी जा रही है। जो Canberrans विक्टोरिया की यात्रा करने का चयन करते हैं, उन्हें वापिस आने पर 14 दिनों की अवधि के लिए संगरोध करने की आवश्यकता होगी।</p> <p>विक्टोरिया से वापिस आने के बारे में और अधिक जानकारी वेबसाइट <a href="https://www.covid19.act.gov.au/community/translated-resources">https://www.covid19.act.gov.au/community/translated-resources</a> पर उपलब्ध है।</p>
<p>While we don't have any active cases right now, the risk of new cases increases with more people travelling interstate.</p>	<p>अभी यहाँ कोई भी सक्रिय मामले नहीं हैं, परंतु अन्य राज्यों से आने-जाने वाले अधिक लोगों के कारण इसका खतरा बढ़ जाता है।</p>